

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1983/फाल्गुन 11, 1904
No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1983/PHALGUNA 11, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या आती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1983

आय-कर

का. आ. 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) की धारा 72-क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में, भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 710(अ),
तारीख 11 अक्टूबर 1977 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद 5 और उस संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,—

“5. सदस्य (राजस्व और संपरीक्षा), केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, अपर सचिव पदेन, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार”।

[सं. 5125/फा. सं. 142 (21)/82-टी पी एल]

जगदीश चन्द्र, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 1983

INCOME-TAX

S.O. 154(J).—In pursuance of clause (b) of the Explanation to section 2A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 710(E), dated the 11th October, 1977, namely :—

In the said notification, for item 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“5 Member (Revenue and Audit), Central Board of Direct Taxes, ex-officio Additional Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India”.

[No. 5125/F. No. 142(21)/82-TPL]

JAGDISH CHAND, Addl. Secy.